

निस्काँट फादर एग्नल स्कूलवैशाली,

अर्ध - मासिक परीक्षा नमूना प्रश्न पत्र - 2017-18

कक्षा -6 ,विषय - हिन्दी

समय :3 घंटे

निर्देश -

पूर्णांक :80

- i. चार खंड है - क, ख, ग और घ
- ii. चारो भाग करना अनिवार्य है ।
- iii. खंड - क और ख 15-15 अंक के है ।
- iv. खंड - ग और घ 25-25 अंक के है ।

---

खंड क -

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

(9)

हजारो साल पहले दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था । उसके तीन पुत्र थे । तीनों आलसी और बुद्ध थे, जिसके कारण उनका मन पढाई में नहीं लगता था । राजा ने उन्हें शिक्षा दिलवाले का बहुत प्रयास किया, परन्तु सब व्यर्थ रहा । तब उन्होंने एक प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शर्मा को अपने दरबार में बुलवाया और राजकुमारों को सुधारने का उत्तदायित्व उन्हें सौंप दिनया । विष्णु शर्मा ने राजा को आश्वासन किया कि वे केवल छः महीने में राजकुमारों के निति - निपुण बनाकर राजकाज चलाने में सक्षम बना देंगे । अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने राजकुमारों को मन बहलाने वाली नीति - कथाएँ सुनानी आरंभ की । परिणामस्वरूप वे शिक्षा में रुचि लेने लगे । इन्ही शिक्षाप्रद , रोचक कथाओं के संग्रह का नाम 'पंचतंत्र ' है ।

- i. गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए और कारण बताइए ? (2)
- ii. राजा के पुत्र कैसे थे ? (2)
- iii. राजकुमारों को सुधारने के लिए राजा ने किसे बुलाया, उन्होंने ने राजा से कितना समय माँगा ?(2)
- iv. पंचतन्त्र में कैसी कथाएँ है ? (1)

v. रोचक का उचित विलोम शब्द लिखिए ?(1)

प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

(6)

यह भारत वर्ष हमारा है

हमको प्राणों से प्यारा है ।

है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ ,

संतरी सरीखा अड़ा हुआ,

गंगा की निर्मल धारा है,

यह भारत वर्ष हमारा है ।

जन्मे थे यहीं राम-सीता,

गूँजी अथी यहीं मधुर-गीता

यमुना का श्यामा किनारा है ,

यह भारत वर्ष हमारा है ।

तन-मन-धन प्राण चढ़ाएँगे ,

हम इसका मान बढ़ाएँगे,

जग का सौभाग्य सितारा है ,

यह भारत वर्ष हमारा है ।

- i. हिमालय किसके समाने खड़ा हुआ है ? (2)
- ii. भारतवासियों को देश किससे प्यारा है ? (2)
- iii. उपर्युक्त पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए ?(1)
- iv. सौभाग्य का उचित वर्ण-विच्छेद लिखिए |(1)

खंड ख -

प्रश्न 3 निर्देशानुसार उत्तर लिखिए -

- |       |                         |   |
|-------|-------------------------|---|
| i.    | क्यों , श्रीमान         | ( वर्ण-विच्छेद कीजिए ) (2)                        |
| ii.   | बंगाली , उर्दू          | ( लिपियों का नाम ) (2)                            |
| iii.  | हाथी , सूरज             | ( दो - दो पर्यायवाची लिखो ) (2)                   |
| iv.   | आदान, राजा, योग्य, क्रय | (विलोम शब्द लिखो ) (2)                            |
| v.    | पशुता, नौकर,चुनना,शिशु  | (भाववाचक संज्ञा बनाइए ) (2)                       |
| vi.   | सेवक , दर्शक            | ( लिंग बदलिए ) (1)                                |
| vii.  | गायें , पुस्तकें        | ( एकवचन रूप में लिखिए ) (1)                       |
| viii. | राजपुत्र , दशानन        | ( समस्तपदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो ) (2) |

**प्रश्न 4 रिक्त स्थान भरो : (1)**

- i. उसे जंगल .....रहना अच्छा लगता है ।
- ii. चोर सिपाही ..... डर गया ।

**खंड - ग**

**प्रश्न 5 लघु उत्तरीय प्रश्न**

- i. लेखिका ने अपने बचपन में कई फ्रॉक पहने थे । उसेव उनमें से किस-किस की याद लंबे समय तक बनी रही ? (1)
- ii. श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों नहीं की ?(2)
- iii. मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा ?(2)

**प्रश्न 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

- i. अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है । कैसे ? (5)

**प्रश्न 7 लघु उत्तरीय प्रश्न**

- i. चिड़िया चोंच मारकर क्या करती है ? (1)
- ii. लड़की के अनुसार चाँद बढ़ते-बढ़ते किस स्थिति को प्राप्त करता है ? (2)
- iii. चिड़िया किस प्रकार के स्थान पर रहना पसंद करती है ? (2)

## प्रश्न 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- i. 'सिर्फ मुहँ खोले हुए हैं अपना' के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है ? (5)

## प्रश्न 9 निबंधात्मक प्रश्न

- i. हम चट्टानों में भी रास्ता कब निकाल सकते हैं ? (5)  
ii. मोहन के दर्द के बारे में किसका अनुमान सही निकला और क्यों ? (5)

### खंड - घ

**प्रश्न - 10** दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए ।(5)

- i. जननी का महत्त्व

**संकेत बिंदु** - जननी का महत्त्व, समाज का दृष्टिकोण, विचारधार में परिवर्तन की आवश्यकता ।

- ii. आधुनिक युग और विज्ञान

**संकेत बिंदु** - आधुनिक युग-विज्ञान का युग, आवश्यकता आविष्कार की जननी, प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से संबंधित, रोगों पर नियंत्रण, विज्ञान का दुरुपयोग ।

- iii. आधुनिक नारी

**संकेत बिंदु** - आधुनिक नारी, नारी की कार्य-क्षमता, नौकरी करने का कारण, वास्तविका आधुनिकता ।

**प्रश्न 11** - आपके मामा जी दोनों बेटियों के विदेश चले जाने से स्वयं को बहुत अकेला महसूस करते हैं । उन्हें सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए । (5)

**प्रश्न 12** - परीक्षा देने के बाद दो विद्यार्थियों के मध्य हुए संवाद को लिखिए । (5)

**प्रश्न 13** - दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए । (5)

